



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 982 राँची, सोमवार,

22 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-119/2017-2567 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-766/03, गृह जिला-पटना), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के विरुद्ध बरवाडीह प्रखण्ड अन्तर्गत खुरा ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण में कतिपय गड़बड़ी की शिकायत पर जाँच करने में लापरवाही बरतने, पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतते हुए विभाग को गुमराह करने एवं दोषी को बचाने संबंधी आरोप, जैसा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3292, दिनांक 18 जुलाई, 2017 द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान

उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशक, एस०बी०एम०, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANJAY KUMAR BHR/BAS/3445	श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-766/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
